

**प्रेस नोट दिनांक 10.04.2021**

**थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।**

**थाना प्रेमनगर #bareillypolice द्वारा एटीएम काटने वाले गिरोह के 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार , कब्जे से एक अदद ग्लाइन्डर मय दो अदद ब्लेड, तीन अदद चाकू नाजायज ,एक अदद तमंचा मय एक खोखा कारतूस 315 बोर ,तीन अदद मोबाइल फोन आदि सामान बरामद ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बरेली व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय जनपद बरेली के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा एटीएम काटने वाले गिरोह के 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया । दिनांक 10.4.21 को उ0नि0 अमर सिंह, हे0का0 512 रामलाल व का0 3067 अनुज मय जीप सरकारी के थाना क्षेत्र में गश्त-लाकडाउन ड्यूटी व देखरेख थाना क्षेत्र व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थे कि गश्त करते हुये चौकी कोहाडापीर तिराहा पर पहुँचे जहां उ0नि0 विजयपाल सिंह चीता मोबाइल के कर्मचारीगण हे0का0 707 विनीत कुमार व का0 1190 कौशिन्द्र कुमार मिले इसके पश्चात उपरोक्त पुलिस बल एक साथ नैनीताल रोड की तरफ जीआरएम तिराहे पर आये तो देखा कि जीआरएम तिराहे पर पंजाब नेशनल बैंक एटीएम पर कुछ लोग खडे थे तथा दो व्यक्ति बाहर अलग-अलग मोटर साइकिलों पर थे तीन व्यक्ति एटीएम के अन्दर थे बाहर खडे वाले दोनो व्यक्तियों ने चिल्लाकर कहा कि पुलिस आ गयी इसके बाद दोनो ने ही पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया इनमें से एक व्यक्ति मौके का फायद उठाकर अपनी मोटर साइकिल से भाग गया जिसका पीछा किया गया भागने में सफल रहा । 04 व्यक्तियों को मौके से दिनांक 10.04.2021 को समय करीब 03.50 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 160/21 धारा 307/380/511/188/269/270 भादवि0 व 3 महामारी अधिनियम व 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

**अपराध करने का तरीका:-** अभि0गण द्वारा एटीएम काटने का प्रयास करना ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

- 1.आलोक मिश्रा पुत्र श्रीनिवास मिश्रा निवासी मणिनाथ शान्ति विहार थाना सुभाषनगर बरेली ।
- 2.दीपक पुत्र राकेश निवासी जागृति नगर करगैना बंदायू रोड थाना सुभाषनगर बरेली ।
- 3.तालिब अली पुत्र जावेद अली निवासी म0नं0 117 मोहल्ला हुसैनी थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद ।
- 4.युवराज पुत्र नरेश कुमार निवासी नूह नियर अनाज मण्डी जिला मेवात हरियाणा ।

**फरार अभियुक्त:-**

- 1.अमन उर्फ अजमेरी पुत्र जमाल हुसैन निवासी नगरिया रोड मोहल्ला मिर्थान दुलारी डेरी के पास कस्वा व थाना फरीदपुर बरेली ।

**आपराधिक इतिहास अमन उर्फ अजमेरी:-**

1. मु0अ0सं0126/2019 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली
2. मु0अ0सं0 573/2018 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली
3. मु0अ0सं0 627/2018 धारा 398,401 भादवि थाना कोतवाली
4. मु0अ0सं0 628/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली
5. मु0अ0सं0 143/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना फरीदपुर
6. मु0अ0सं0 294/2019 धारा 8/20NDPS ACT थाना बारादरी

7. मु0अ0सं0 295/2019 धारा थाना बारादरी ।
8. मु0अ0सं0 298/2019 धारा 41/102 भादवि थाना बारादरी
9. मु0अ0सं0 140/2021 धारा 392 थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
10. मु0अ0सं0 668/2020 धारा 392 थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।

**बरामदगी:-**

1. एक अदद ग्लाइन्डर मय दो अदद ब्लेड
2. तीन अदद चाकू नाजायज
3. एक अदद तमंचा मय एक खोखा कारतूस 315 बोर
4. तीन अदद मोबाइल फोन
5. दो खाली बैग
6. एक अदद मोटरसाइकिल नं0 UP25CA8860 पेशन प्रो0

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. उ0नि0 अमर सिंह यादव थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
2. उ0नि0 विजयपाल सिंह थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
3. हे0का0 512 रामलाल थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
4. हे0का0 707 विनीत कुमार थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
5. का0 3067 अनुज थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
6. का0 1190 कौशिनद्र कुमार थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।

सोशल मीडिया सैल  
जनपद बरेली ।

